

प्रेम्क,

राधे मोहन श्रीवास्तव,
अपर सिविल जज ४ ३० डि०,
कल संख्या- ५, वाराणसी ।

सेवा में;

माननीय महा निष्पक्ष,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद, १३० प्र० ।

द्वारा,

श्रीमान् जयद न्यायाधीश,
वाराणसी ।


विषय :- ३० प्र० राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं को जोड़ने एवं
उसका लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मैं दिनांक 11.04.2005 से 20.06.2006
तक 30 प्र० सरकार के अधीन महापक्ष आभ्योजन अधिकारी के पद पर
कार्यरत था । मैं दिनांक 20.06.2006 को अरराज में अपने नियुक्ति
स्थल प्रतापपुर 30 प्र० में आया । जो कि आभ्योजन अधिकारी के पद के कार्यभार
हूँ। एवं दिनांक 21.06.2006 से 30 प्र० पूर्वानिर्देश में जयद वाराणसी
में अपर सिविल जज ४ 30 डि० के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । मैंने
महापक्ष आभ्योजन अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए महाम अधिकारी
की अनुमति से 30 प्र० में आया । जो कि अरराज में भाग लेकर व्ययित्त
होने के पश्चात् वर्तमान पद पर कार्यरत हूँ । अतः मैंने अपने द्वारा
राज्य सरकार के अधीन महापक्ष आभ्योजन अधिकारी के पद पर दिनांक
11.04.2005 से 20.06.2006 तक की गई सेवाओं का लाभ मुझे प्रदान
वाँच्ये ।

अतः श्रीमान्जी से विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा 30 प्र०
राज्य सरकार के अधीन महापक्ष आभ्योजन अधिकारी के पद पर की गई
सेवाओं को मेरी वर्तमान सेवा में जोड़ने एवं उसका लाभ प्रदान करने की
कृपा करें ।

भवदीय,


राधे मोहन श्रीवास्तव
अपर सिविल जज ४ ३० डि०,
कल संख्या- ५, वाराणसी ।

दिनांक- 18/12/06

District Judge Varanasi
Date: 20.12.06
District Judge
Varanasi
20.12.06

अपने पद पर कार्यरत का प्रमाण